

Date: 15th February, 2024

To,
The Listing Department
The Metropolitan Stock Exchange of India Limited,
205(A), 2nd floor, Piramal Agastya
Corporate Park, Kamani Junction,
LBS Road, Kurla (West), Mumbai- 400070
MSEI Symbol: BCL

To, Department of Corporate Services The BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001 Scrip Code: 539621

Subject: Newspaper Publication of the Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine-Months ended December 31, 2023

Dear Sir(s),

With reference to the captioned subject, we enclose herewith the newspaper clippings of the Un-Audited Financial Results pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the Quarter and Nine-Months ended December 31, 2023 as published in following newspapers:

- 1. Financial Express (English Language) dated 15th February, 2024.
- 2. Jansatta (Hindi Language) dated 15th February, 2024.

This is for your information and records.

Thanking You, For BCL Enterprises Limited

Mahendra Kumar Sharda (Managing Director) DIN: 00053042 Office Add: 510, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001

CIN: L65100DL1985PLC021467

510 I 5th Floor I Arunachal Building I Barakhamba Road I New Delhi- 110001 I India

Board: +91-11-4308 0469 I Email: bclenterprisesltd@gmail.com I www.bclenterprisesltd.in

**Particulars** 

Date: 14.02.2024

Place: Mukerian

Particulars

Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive

Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of

Earnings Per Share (before extraordinary items)

Earnings Per Share (after extraordinary items)

Income (after tax)]

previous year)

(i) Basic

(i) Basic

(ii) Diluted

(ii) Diluted

(of Rs. 10 /- each)

(of Rs. 10 /- each)

Place: Mumbai

Date: 14th February,2024

Equity Share Capital

Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax

an Fin Homes Lto

# **FINANCIAL EXPRESS**

# **CAN FIN HOMES LTD**

C-18, Param Plaza, RDC Ghaziabad, 201001, Contact: 0120-4086097, ghaziabad@canfinhomes.com, CIN: L85110KA1987PLC008699

Possession Notice [Rule 8 (1) ] For Immovable Properties

The undersigned being the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of the powers under the said Act and Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice on the below mentioned dates calling upon the following borrower(s)/co-borrowers/guarantors to repay the amount mentioned in the notice with further interest at contractual rates till date of realization within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below, against each borrower, in exercise of powers conferred under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on dates mentioned hereinafter.

Sr. No.	Name of Borrowers and Guarantors	Description of the Property	Date of Demand Notice	Outstanding amount	Date of Possession
1.	Mr. Sudhir Kumar S/o Sukhbir Singh & Mrs. Rajesh W/o Sudhir Kumar and Guarantor Mr. Jai Kumar Rathi S/o Peetam Singh Rathi	(Flat NoFH07, Khasra No. 798/1, Avantika Colony, Ghaziabad, Uttar Pradesh, 201002 and Boundaries of the Property are as under: North: Police Line, South: 7.5 M wide Road, East: Plot No. 6, West; Plot No. 8.		Rs. 12,38,763 and interest from 29.11.2023	13.02.2024
2.	Yashpal Shyoran & Ms.	(House on Plot No. 44, Khasra No. 24MI, Village Asalat Nagar, Pargana Jalalabad, Tehsil Modi Nagar, District Ghaziabad, Uttar Pradesh 201206 and Boundaries of the Property are as under: North: Plot No. 43, South: Plot No. 45, East: Plot No. 56 & 57, West: Road 20 Feet.	149441507000000	Rs. 6,05,260 and interest from 29.10.2023	13.02.2024

borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CFHL for the amount mentioned against each property along with further interest thereon till the date of realisation. Date: 14.02.2024 Sd/- Authorised Officer, Can Fin Homes Ltd. Place: Ghaziabad

### **INDIAN SUCROSE LIMITED**

CIN: L15424PB1990PLC010903

Registered Office & Works: G.T. Road, Mukerian - 144211, Distt. Hoshiarpur (Punjab), India Tel: +91-9115110651/52, 91-9115110505, Email: isl.investor@yaducorporation.com, Website: muksug.in

> EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2023 (₹ in lakhs except earnings per share

> > Standalone

No.		Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Nine months ended	Nine months ended	Year ended
		31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
				(Un-Audited	)		(Audited)
1.	Total Income from Operations	6,889	9,275	10,781	27,703	27,072	46,251
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	283	(536)	1,424	114	1,446	4,221
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	283	(536)	1,424	114	1,446	4,221
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	176	(272)	645	74	686	2,954
5.	Total Comprehensive Income for the period [(Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0	9	(1)	9	(16)	47
6.	Equity Share capital	1,738	1,738	1,738	1,738	1,738	1,738
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		0			0	
8.	Earnings per equity share (of ₹1/- each) (not annualised except for March, 31) (a) Basic (in ₹) (b) Diluted (in ₹)	1.01 1.01	(1.62) (1.62)	3.70 3.70	0.37 0.37	3.85 3.85	
NO.	TES:						

1. The above financial results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 14-02-2024. The above financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under

Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder. Sugar being a seasonal industry, the performance of the quarter may not be representative of the annual performance of the Company

4. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock exchange website, www.bseindia.com and on the Company's website www.muksug.in

The Previous financial period Figures have been regrouped/rearranged/restated, wherever considered necessary.

CRESCENT FINSTOCK LIMITED

CIN: L51100GJ1997PLC032464

Regd Office: A/12, Snehkuni CHS, Resi, Plot No 374, Koparli Road, G. I. D. C. Vapi - 396195, Gujarat Phone No.; 022 -6188 7600; Email id: crescentfinstock@yahoo.com website: www.crescentfinstock.com

Extract of Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine month

ended December 31,2023

Quarter

ended

5.46

(6.28)

(6.28)

(6.28)

(5.38)

783.85

NA

(0.08)

(0.08)

(0.08)

(0.08)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine Month Financial Results filed with

the Stock Exchange website viz. www.msei.in and Company's Website www.crescentfinstock.com.

the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine month Financial Results are available on

Nine

Month

ended

11.82

(20.06)

(20.06)

(20.06)

(19.15)

783.85

NA

(0.28)

(0.28)

(0.28)

(0.28)

Standalone

Quarter

ended

(4.93)

(4.93)

(4.93)

(4.93)

722.35

(0.07)

(0.07)

(0.07)

(0.07)

Quarter

ended

650.56

650.56

650.56

124.07

783.85

NA

8.30

8.30

8.30

8.30

For and on behalf of the Board of Directors

31.12.2023 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2022 JnAudited) (UnAudited) (UnAudited) (UnAudited) (UnAudited) (UnAudited)

For Indian Sucrose Limited Sd/-**Kunal Yadav** (Managing Director) DIN: 01338110

(Rs. In Lakh except EPS)

Nine

Month

ended

284.09 1,272.21 451.28

643.71

643.71

643.71

410.58

783.85

NA

8.21

8.21

8.21

8.21

Crescent Finstock Limited

Consolidated

Quarter

ended

72.81

72.81

72.81

18.08

722.35

NA

1.01

1.01

1.01

### NORTHERN RAILWAY CORRIGENDUM

Ref: i) Tender Notice No. 81/2023-24 dated 05.01.2024 (S.No. 11) ii) Tender No. 08235705 due on 12.02.2024

In reference to above tender, the due date has been extended from 12.02.2024 to 11.03.2024. All other terms and conditions remain unchanged.

The corrigendum has been published on website www.ireps.gov.in,

495/24 SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

**NORTHERN RAILWAY** 

Azadi Ka

ehalf of		rials Manager, Northern Railway, New Do ent of India, invites e-tenders through e-p gitems:-		
Sr. No.	Tender No.	Brief Description	Qty.	Closing Date
01	07231145	Non Asbestos K-Type High Friction Composite Brake Block	26674 Nos	11.03.2024
02	01245004	Design, Supply, Erection, Testing and Commissioning of Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)		12.03.2024
03	15245003	Rail Drilling Machine	281 Nos	14.03.2024
04	77239060 RGC	Running Contract for Diamond & Scissors Crossings	275 Set	27.03.2024
05	77239059 RGC	Running Contract for Galvanized Plate Screw	1529300 Nos	03.04.2024
06	77236148	Manufacturing and Supply of 11200 MM Thick Web Switches	11 Set	08.04.2024
07	77236586	Manufacturing and Supply of Improved Switch Expansion Joints	110 Set	12.04.2024
08	77239061 RGC	Running Contract for Combination SEJ	400 Set	19.04.2024
09	07231943	Indicator for Air Brake System	432 Nos	26.04.2024
10	19242321	Ducting with Wire MESH	72 Nos	10.06.2024

for details. No manual offer will be entertained.

7==

Tender Notice No. 93/2023-2024 Dated: 14.02.2024

497/2024

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (formerly Fullerton India Credit Company Limited) Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101,102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

(Under Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) Whereas the undersigned being the authorized officer of SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Company Limited), Having its registered office at Megh Towers, 3rd Floor, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road Maduravoyal, Chennai, Tamil Nadu-600095 and Corporate office at 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051 under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security nterest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 25.Nov.2023 calling upon the borrower(s) 1) TAJINDER SINGH, 2) SATBIR KAUR under loan account number (s) # 174825600000120 to repay the amount mentioned in ne notice being Rs. 32,70,857.75/- [RUPEES THIRTY-TWO LAKHS SEVENTY THOUSAND EIGHT HUNDRED FIFTY SEVENT AND SEVENTY FIVE PAISA ONLY] within 60 days from the date of receipt of the said notice.

borrower(s) and the public in general that undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 13 Day of Feb in the year 2024. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the Charge of SMFG

The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Company Limited) for an amount of Rs. 32,70,857.75/- [Rupees Thirty-two Lakhs Seventy Thousand Eight Hundred Fifty Sevent And Seventy Five Paisa Only] and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the

Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Description Of Immovable Property: ALLTHAT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY OF LAND B XXVIII-186/34/S-7, PLOT NO. 34-A, PROPERTY MEASURING AN EXTENT OF 117 SQ. YEARDS. COMPRISED IN KHASRA NU. 378, 380, KHATTA NO. 159/201, 160/202. SITUATED

AT VILLAGE JAWADDI, H. B. NO 160, ABADDI KNOWN AS GURU GIAN VIHAR, THE, & DISTT LUDHIANA BOUNDED:- EAST: STREET 20 WIDE WEST: NEIGHBOURER NORTH: PLOT NO. 33 SOUTH: NEIGHBOURER WITHIN THE REGISTRATION DISTRICT OF LUDHIANA AND SUB REGISTRATION OFFICE LUDHIANA. Place: LUDHIANA Date: 15.02.2024 SD/-, Authorised Officer.

SMFG India Credit Company Limited (formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)

# PANKAJ PIYUSH TRADE & INVESTMENT LIMITED

REGD. OFFICE: 304, BUILDING NO. 61, VIJAY BLOCK, LAXMI NAGAR, EAST DELHI, DELHI-110092 CIN: L22209DL1982PLC25629 WEBSITE: www.pptinvestment.in , EMAIL: infopptinvestment@gmail.com, PHONE - 011-44781747, +919818502247

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

	QUARTER & NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023 (					s. In lakhs)
S.	Particulars	Quarter Ended		Nine Mo	Year ended	
No.		31.12.2023 (Un-Audited)	31.12.2022 (Un-Audited)	31.12.2023 (Un-Audited)	31.12.2022 (Un-Audited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations (net)	35.97	80.19	119.36	149.87	374,59
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax	(0.76)	27.78	58.46	79.03	(2.52)
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(0.17)	18.10	44.12	56.45	(5.27)
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(0.17)	18.10	44.12	56.45	(5.27)
5	Paid-Up Equity Share Capital	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet)	12	129		200	2,488.17
7	Earnings Per Share (before & after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)					
	Basic:	(0.04)	4.52	11.03	14.11	(1.32)
	Diluted:	(0.04)	4.52	11.03	14.11	(1.32)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/nine months ended Financial Results (Standalone) filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/nine months ended financial results available on the Stock Exchanges websites i.e. (www.bseindia.com) and also available on the Company's Website www.pptinvestment.com For Pankaj Piyush Trade And Investment Limited

Place: New Delhi Sagar Khurana Date: February 14, 2024 **Executive Director** 

#### Vidyadhar More Whole Time Director & CFO DIN: 10243651

NNP CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED CIN No: U45400PN2020PTC196968 Regd Office: 3rd Floor, S. No.-34, Near Inorbit Mall, Wadgaon Sheri, Pune - 411014

- 4		Quarter	Ended	Year Ended	
Sr. No.		December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023	
		Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations	3,499.48	15,994.15	19,890.13	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(50.49)	2,202,29	1,037.11	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(50.49)	2,202.29	1,037.11	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items )	(37.83)	1,648.02	776.08	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(37.83)	1,648.02	776.08	
6	Paid-up Equity Share Capital	1.00	1.00	1.00	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	732.97	1,122.05	776.08	
8	Security Premium Account		(197)		
9	Net worth	733.97	1,123.05	777.08	
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	144,512.65	87,174.90	87,184.23	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	330	- 3	
12	Debt Equity Ratio	196.89	77,62	112.20	
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - (a) Basic (b) Diluted	(378.34) (378.34)	16,480.18 16,480.18	7,760.80 7,760.80	
14	Capital Redemption Reserve	-		. 3	
15	Debenture Redemption Reserve	1 18	320		
16	Debt Service Coverage Ratio	0.99	1.60	1.12	
17	Interest Service Coverage Ratio	0.99	1.60	1.12	

1. The above Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 14 February, 2024.

- 2. The above is an extract of the detailed format of guarterly financial results filed with the BSE Limited ("Stock Exchange") under regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and on the website of the Company at www.nnpc.co.in. 3. For the other line items referred in regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements). Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange i.e. BSE Limited and can be accessed on the
- website at www.bseindia.com and on the website of the Company at www.nnpc.co.in. This extract of Financial Results has been prepared in accordance with the requirement of Regulation 52 of SEBI Listing.
- Regulations, read with Chapter 1 of Operational Circular bearing reference no. SEBI/HO/DDHS/DDHS Div1/P/CIR/2022/0000000103 dated July 29, 2022 ("Circular").

For NNP Construction Private Limited

Bhushan Vilaskumar Palresha Director DIN: 01258918

# BHAGAWATI GAS LIMITED

Regd. Office: Banwas, Khetri Nagar-333504, Dist.-Jhunjhunu, Rajasthan Corp. Office: S-492/A, Greater Kailash-I, New Delhi-110048 Ph. No. 91-11-49120719 E-Mail ID: bhagwatigases@gmail.com; CIN: U24111RJ1974PLC005789; Website: www.bglgroup.in EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

SI.	Particulars	Quarter	Ended	Nine Months Ended	Year Ended	
No.		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2023	
		(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Audited)	
1.	Total Income from operations	36.98	12.51	111.85	89.29	
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before depreciation, Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	0.50	(18.64)	13.52	61.15	
3,	Net profit/(Loss) for the period before tax (after depreciation, Exceptional and/or Extraordinary items)	(3.68)	(22.71)	0,98	(77.87)	
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3.68)	(22.71)	0.98	61.93	
5.	Total comprehensive income for the period (Comprising profit1oss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	(3.68)	(22.71)	0.98	63.25	
6.	Paid up Equity Share Capital (face value Rs. 10/- each)	1,674.25	1,674.25	1,674.25	1,674.25	
7.	Reserve excluding revaluation reserves				(204.62)	
8.	Earnings per share (EPS): 1. Basic: 2. Diluted:	(0.02)	(0.136)	0.03	0.38	

 The above Standalone financial results of the Company for the Quarter and nine months ended December 31, 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Director in their respective meetings held on Wednesday, February 14, 2024 and the Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of the aforesaid Results.

The above extract of the detailed format of financial results for the guarter and nine months ended 31st December 2023 filled with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) regulations 2015. The full format of financial results are available on the website of the company

The figures for the previous period have been restated / regrouped / reclassified, wherever necessary, in order to make them comparable. For Bhagawati Gas Limited

Rakesh Samrat Bhardwaj (Managing Director) DIN: 00029757

### **CONSOLIDATED FINVEST & HOLDINGS LIMITED** CIN: L33200UP1993PLC015474

Regd. Office: 19th K.M., Hapur Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Bulandshahr (U.P.) Head Office: Plot No. 12, Local Shopping Complex, Sector - B -1, Vasant Kunj, New Delhi - 110070

Tel. No.: 011 - 40322100, E-mail:cs\_cfhl@jindalgroup.com, website: www.consofinvest.com EXTRACTS OF THE STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS

PARTICULARS	Quarter Ended 31.12.2023	Quarter Ended 31.12.2022	Nine Months Ended 31.12.2023	Year Ended 31.03.2023
	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited
Total Income from operations	1,443	1,105	4,211	41,732
Net Profit for the period (before Exceptional items and tax)	1,345	1,093	4,061	41,077
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,345	1,093	4,061	41,077
Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	987	987	3,015	31,293
Total Comprehensive Income/(Losss) for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax))	484	(331)	4,771	24,122
Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs 10/- each)	3,233	3,233	3,233	3,233
Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) on Net Profit (Not annualised) - Basic and Diluted	3.05	3.05	9.33	96.81

Companies Act 2013 read with the relevant rules issued thereunder.

The above results were reviewed by the Audit Committee and taken on record at the meeting of the Board of Directors at their respective meetings held on 14th February 2024 and Review of these results has been carried out by the Statutory Auditor's of the Company.

The above is an extract of the detailed format of un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com) and also on the Company's website at www.consofinvest.com.

EFFICIENT INDUSTRIAL FINANCE LTD

CIN: L65923DL1984PLC019608

By Order of the Board for Consolidated Finvest & Holdings Limited

Place: New Delhi Date: 14" February, 2024 Sanjiv Kumar Agarwal Director DIN: 01623575

Regd Office: 3/14A, Vijaynagar Double Storey, Delhi-110009 Contact No. 9891173870, Website: www.efficientindustrial.in Email Id: efficientindustrial@gmail.com Extract of Standalone Financial Results for the Quarter ended on 31st Dec. 2023

(Amt in Lakhs) **Standalone Particulars** Corresponding 3 | Quarter and Year ended three months months ended ended (31/12/2022) in the (31/12/2023) 31.03.2023 previous year Unaudited Unaudited **Audited** Total Income from Operations (net) 0.62 8.98 0.62 Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or 0.56 Extraordinary items) 0.35 (1.01)Net Profit/(Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items) 0.35 0.56 (1.01)Net Profit/(Loss) for the period (1.01)0.26 0.41 Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]

The above is an extract of the detailed format of the Standalone results for the three months ended on 31st Dec, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Lising and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Financial Results for the three months ended on 31st Dec, 2023 are available on the Stock Exchange website www.msei.i and the company Website.

For Efficient Industrial Finance Ltd

12/31/2022

24.80

727.28

(0.41)

(0.41)

24.80

725.94

0.17

0.17

Raj Kumar Bardia

Managing Director

DIN- 01736079

3/31/2023

Dated: 14.02.2024 Place: Delhi

No.

Balance Sheet of previous Year)

Paid-up equity share capital [Face value Rs. 10 per share]

Reserves (excluding revaluation reserves as Shown in the

Earnings per share - (after extraordinary items)- (of Rs. 10/- each)

Diluted earnings per share- (after exceptional items)- (of Rs. 10/- each)

**BCL ENTERPRISES LIMITED** 

12/31/2023

24.80

725.94

0.10

0.10

Regd off: 510, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001 CIN: L65100DL1985PLC021467; E-mail: bclenterprisesltd@gmail.com; Ph: 011-45689444

Extract of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine-months ended 31st December, 2023 (Rs. In Lakhs) **Particulars** Quarter Ended Quarter Ended **Quarter Ended** 

		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from operations	129.77	41.83	1,412.52
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	48.57	10.85	(68.38)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	48.57	10.85	(68.38)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	42.21	10.85	(91.90)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] (Refer Note No. 2)			
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/-)	1,166.00	1,166.00	1,166.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):			
	Basic:	0.04	0.01	(0.08)
T)	Diluted:	0.04	0.01	(0.08)

- 1. The Company is having only one business activity so the segment reporting under Ind AS-108 is not required. The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their
- meeting held on 13th February 2024.
- Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary to confirm to the periods of current periods Indian Accounting Standards are applicable on the Company w.e.f 1st April 2019.

On Behalf of the Board **BCL Enterprises Limited** 

Date: 13.02.2024

Mahendra Kumar Sharda (Managing Director) DIN:00053042

(Rs.in Lakhs)



Place: New Delhi

### **ANS INDUSTRIES LIMITED** (CIN L15130HR1994PLC032362)

Regd Office-136 KM, Vill & P.O.-Shamgarh, District-Karnal, Haryana-132116 website:www.ansfoods.com, email id-ansagro.limited@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER ENDED 31<sup>ST</sup> DECEMBER.2023

SI.		Quarter Ended			Nine mon	Year Ended	
No.	Particulars	31.12.2023 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	PRINCIPLE OF STREET AND STREET	31.12.2023 Unaudited	Principle of the County of the	4,454,454,444
1	Total Income from operations	0.67	0.60	0.53	1.87	1.55	25.76
H	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	-23.53	-21.96	-25.56	-68.79	-83.29	(143.07)
III	Net Profit/(Loss ) for the period before tax (after exceptional items)	-23.53	-21.96	-25.56	-68.79	-83.29	(143.07)
IV	Net Profit/(Loss ) for the period after tax & exceptional items)	-23.53	-21.96	-25.56	-68.79	-83.29	(164.80)
V	Total Comprehensive income for the period (comprising profit/(loss)for the period after tax & other comprehensive income)						
VI	Paid-up equity share capital (Face Value Rs.10 per share)	925.56	925.56	925.56	925.56	925.56	925.56
VII	Other Equity (Excluding revaluation reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	(436.28)	(21.96)	(328.97)	(436.28)	(328.97)	(367.49)
VIII	Earnings per equity share of Rs.10 /each (not annualised)	Marca Mil					
	(a) Basic	-0.25	-0.24	-0.28	-0.74	-0.47	-1.78
	(b) Diluted	-0.25	-0.24	-0.28	-0.74	-0.47	-1.78

# 1 The above result is an extract of detailed format of quarter and Nine Months ended 31st December, 2023 filed with Stock

Place: New Delhi

company www.ansfoods.com and website of BSE www.bseindia.com 2 The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors in its meeting held on

exchange (BSE) as per Reg 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and full format is available on the website of the

- Figures for the previous year / period have been re-arranged wherever necessary. For ANS industries Limited
- Date: 14/02/2024

New Delhi

(Mehinder Sharma) Managing Director DIN-00036252

financiale

Date: February 14, 2024

Place : Pune



Place: New Delhi

Date: February 14, 2024

वथना फाइनेस प्राइवेट लिमिटेड varthana (पूर्व में थिरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लि. के रूप में अभिज्ञात) . कार्यालयः सं. 5बीसी–110, वरासिद्धि, बाह्य रिंग रोड, सर्विस रोड, तृतीय खंड, एचआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंगलोर-560043, वेबसाइटः www.varthana.com, ई-मेलः care@varthana.com, दूरमाष संः 080—68455777, शाखा कार्यालयः 1162 और 1163, टॉवर बी—1, 11वीं मंजिल, स्पेज़ टेक पार्क, सेक्टर 49, सोहना रोड,

#### आधिपत्य सूचना (नियम 8(1)) (अचल सपत्ति हेत्)

प्राइवेट लि. के रूप में अभिज्ञात) गुरुग्राम के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ (२००२ का ५४) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 31.10.2023 को निर्गत की थी, जिसमें आवेदकों / सह-आवेदकों / बंधककर्ताओं को ऋण खाता सं: S20GUR-GUR 015609, S 19GUR-GUR-006462, 1.मैसर्स इंडियन मेवात डेवलपमेंट मिडिल स्कूल, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, वीपीओ छायंसा तहसील हथीन, जिला पलवल हरियाणा , पलवल, हरियाणा 121103, 2. मैसर्स मैसर्स मेवात डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सोसाइटी, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, वीपीओ छांयसा तहसील हथीन, जिला पलवल हरियाणा, पलवल, हरियाणा –121103 3, श्री जैकम पुत्र भुन्नम, छांयसा (२११), पलवल, हरियाणा १२११०३, ४. श्री मुर्तजा खान पुत्र स्व. जैकम खान, छांयस (211), पलवल, हरियाणा—121103, 5. श्री सराजू पुत्र भुन्नम, छांयसा (211), हथीन, पलवल, हरियाणा-121103 से उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि 31.10.2023 के अनुसार रु.20,52,125/- (रुपये बीस लाख बावन हजार एक सौ पच्चीस मात्र)का भुगतान की तिथि तक मांग सूचना में वर्णित विवरणों के अनुसार आकलित आकरिमक व्ययों, लागत तथा अन्य शुल्कों इत्यादि के साथ ब्याज की अनुबंधित संविदात्मक दर के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभूगतान करने को कहा गया था।

चूंकि, यहां इसमें उपरोक्त वर्णित आवेदकगण/सह-आवेदकगण/बंधककर्तागण ब्याज/अन्य शुल्कों के साथ पूर्ण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभूगतान करने में विफल हो चूके हैं, अतएव एतदद्वारा आवेदकों / सह-आवेदकों / बंधककर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मैसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम् शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पिटत उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 13.02.2024 को आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

आवेदकों / सह–आवेदकों / बंधककर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, दिनांक 12.02.2024 के अनुसार **रु.21,45,028/- (इक्कीस लाख पैंतालीस हजार अड्डाईस** रुपये मात्र)की एक राशि का भगतान की तिथि तक यहां इसमें ऊपर अंकितानुसार ब्याज की अनुबंधित संविदात्मक दर और आकलित आकस्मिक व्ययों, लागत तथा अन्य शल्कों इत्यादि हेत मैसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड,गुरुग्राम के प्रभाराधीन होगा। आवेदकों / सह–आवेदकों / बंधककर्ताओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

**अचल संपत्ति का विवरण :** खेवट नं. 430, खाता नंबर 604, मुस्तिकल नंबर 39, किला नंबर 7(5–8), गांव छांयसा, तहसील हथीन, जिला फतेहाबाद, हरियाणा – 121103 स्थित संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा और अंश, सीमाएं: पूर्वः संपत्ति का हिस्सा, पश्चिमः सड़क. उत्तरः जगदीश की संपत्ति / घर का हिस्सा, दक्षिणः जाफर का घर।

दिनांकः 15—02—2024, स्थानः मौजा गांव छांयसा हस्ता. / —प्राधिकृत अधिकारी, वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

### DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74899DL1989PLC035140 Regd. Office: 5th Floor, Kanchenjunga Building, 18 Barakhamba Road,

New Delhi -110001 Tel.: 011-43745000, E-mail: dsil@dcmsr.com, Website: www.dcmsr.com NOTICE OF POSTAL BALLOT TO MEMBERS

Notice is hereby given that pursuant to Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 ("Rules") as amended, the General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020 and General Circular No. 9/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable provisions of the Acts, Rules, Regulations, Circulars and Notifications issued thereunder (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), the Company has on Wednesday, 14th February, 2024, sent to the Members, who have registered their e-mail IDs with Depository Participant(s) or with the Company, the Notice of Postal Ballot dated 12th February, 2024 together with an Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Act, vide an e-mail through KFin Technologies Limited.

The Board of Directors of the Company has appointed Shri Swaran Kumar Jain (COP No.4906) Practicing Company Secretary and Shri Neeraj Jain (COP No. 26163) Practicing Company Secretary (alternate) as Scrutinizer(s) for conducting the Postal Ballot/e- voting process in a fair and transparent manner.

Members are requested to provide their assent or dissent through e-voting only. The Company has availed the services of KFin Technologies Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company for facilitating e-voting to enable the Shareholders to cast their votes electronically. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Notes to the Postal Ballot Notice. The details of e-voting period are as under:

Cut-off Date	Monday, 12th February, 2024
Commencement of e-voting	Monday, 19th February, 2024 at 9.00 A.M. (IST)
Conclusion of e-voting	Tuesday, 19th March, 2024 at 5.00 P.M. (IST)

In line with the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company Depositories. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the e-voting system only.

A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice of Postal Ballot for information purpose only. The copy of Postal Ballot notice is available on the Company's website at <a href="https://www.dcmsr.com">https://www.dcmsr.com</a>, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of KFin Technologies Limited at https://evoting.kfintech.com/showallevents.aspx. Members who do not receive the Postal Ballot Notice may download it from the abovementioned websites.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Company at investorservices@dcmsr.com along with the copy of the signed request letter in Form ISR-1 mentioning the name and address of the Member, selfattested copy of the PAN card, and self-attested copy of any document (eg.: Aadhaar, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participants. In case of any queries / difficulties in registering the e-mail address, Members may write to investorservices@dcmsr.com.

The Results of the Postal Ballot will be declared on or before Thursday, the 21st March, 2024 at the Regd. Office of the Company and shall be displayed on the Company's

For any query members may contact the Company at 011- 43745075 / E-Mail ID: investorservices@dcmsr.com or Company's Registrar and Transfer Agents, KFin Technologies Limited having their office at Selenium Building, Tower B, Plot Nos. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032. Contact details: Toll Free No.: 1800-3094-001; or send an email request at the email id: einward.ris@kfintech.com.

For DCM Shriram Industries Limited

FCS: 3405

Place: New Delhi

Dated: 14.02.2024



Y.D. Gupta Company Secretary & Compliance Officer

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड सीआईएनः L65110TN2014PLC097792

(तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

**पंजीकृत कार्यालयः** केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई – 600031. टेलः 91 44 4564 4000 | फैक्सः 91 44 4564 4022.

#### सार्वजनिक नोटिस सोने की नीलामी सह आमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड से खरीदे गए सोने के आभूषण के बदले में क्रेडिट सुविधा के लिए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। चूंकि उधारकर्ता सुविधा के तहत बकाया चुकाने में विफल रहे है। हम 22/02/2024 को गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की नीलामी आयोजित करने के लिए बाध्य हैं। यदि इस नीलामी से कोई अधिशेष राशि

IDFC FIRST

प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई कमी होती है, तो शेष राशि उचित कानुनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से राशि वसल की जाएगी। आईडीएफसी फर्सट बैंक के पास निम्नलिखित खाते को बिना पूर्व सुचना के नीलामी से हटाने का अधिकार है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्सट बैंक बिना किसी पर्व सचना के नीलामी तिथि बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ऋण खाता संख्या	ग्राहक का नाम	शाखा का नाम
		Wildling III
440050707	शक्ति रंजन	
110059707	41(I) (I)II)	कमला नगर शाखा
114789623	शक्ति रंजन	THE THE BUILD
114703023	शाक्त रजन	कमला नगर शाखा
1		
112412407	साहिल जैन	गुड़गांव सेक्टर इकतीस शाखा
		3,

नीलामी 22 फरवरी 2024 को दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक https://egold.auctiontiger.net के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित

इस प्रकाशन के माध्यम से संबंधित उधारकर्ता को निर्धारित नीलामी तिथि से पहले सभी ब्याज और शल्कों के साथ वापस ली गई सुविधा की राशि का भुगतान करने के लिए अंतिम नोटिस और अंतिम अवसर दिया जाता है, अन्यथा आभूषण की नीलामी की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि, यदि समय सीमा के कारण नीलामी उसी दिन पूरी नहीं होती है, तो बैंक अगले 7 दिनों के भीतर समान नियमों और शर्ती पर गिरवी रखे गए सोने के आभुषणों की फिर से नीलामी करेगा। यदि ग्राहक की मृत्यू हो गई है तो नीलामी से संबंधित सभी शर्ते उसके कानुनी उत्तराधिकारियों पर लागू होंगी।

दिनांकः 15/02/2024 स्थानः दिल्ली

### KUWER INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74899DL1993PLC056627 Registered office: D-1004, First Floor, New Friends Colony, New Delhi-110025 Email I.D- investor.kuwer@gmail.com : Website: www.kuwer.com Tel. No.: 0120-2580088

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER, 2023 Amount in Lakh (except EPS)

Sr.		Quarter ended	Year Ended	Correspondin
No.	Particulars	on	on	Quarter ende
140.				on
		31.12.2023	31.03.2023	31.12.2022
		Unaudited	Audited	Unaudited
1	Total Income from Operations	1515.16	6716.48	1565.20
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or			
	Extraordinary items)	72.70	14.56	-124.97
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional			
	and/or Extraordinary items)	72.70	14.56	-124.97
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or			
	Extraordinary items)	75.28	23.52	-122.64
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss)			
	for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	75.28	36.68	-122.64
6	Equity Share Capital (Rs. 10 per share)	907.61	907.61	907.61
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the			
	Audited Balance Sheet of the previous year	0.00	0.00	0.00
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			
	1. Basic :	0.83	0.26	(1.35)
	2. Diluted :	0.83	0.26	(1.35)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and nine months financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at mentined URL: https://www.bseindia.com/xmldata/corpfiling/AttachLive/79231d9b-e260-4c31-8e49-e736ffe3091b.pdf

The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 15.02.2025.

For Kuwer Industries Limited

(रू० लाखों में)

Place-New Delhi Date-14.02.2024

Tarun Agarwal (Managing Director)

#### बीसीएल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड पंजीकत कार्यालय: 510. अरूणाचल बिल्डिंग.19. बाराखम्बा रोड. नई दिल्ली-110001

CIN: L65100DL1985PLC021467; ई—मेल: bclenterprisesItd@gmail.com; दूरभाष: 011-45689444

31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के एकीकृत अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

क्र० सं०	विवरण	समाप्त तिमाही 12/31/2023 (अनअंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 12/31/2022 (अनअंकेक्षित)	समाप्त वार्षिक 3/31/2023 (अंकेक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	129.77	41.83	1,412.52
2	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	48.57	10.85	(68.38)
3	कर से पहले अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	48.57	10.85	(68.38)
4	कर के बाद अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	42.21	10.85	(91.90)
5	अविध के लिए कुल व्यापक आय [अविध के लिए शामिल लाभ/ (हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)] (संदर्भ नोट न० 2)			
6	चुकता शेयर पूँजी [सममूल्य रू० 1/-]	1,166.00	1,166.00	1,166.00
7	रिजर्व (रीवैलूवेसन रिजर्व को छोड़कर जैसा कि पिछले वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया)			
8	प्रति शेयर आय [सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर] (संचालन जारी एवं बंद करने के लिए)			
	मूलः	0.04	0.01	(0.08)
-1	तरलः	0.04	0.01	(0.08)

- 1. कम्पनी ने पास केवल एक व्यवसायिक कार्यकलाप है इसलिए एएस-108 के अन्तर्गत खण्ड रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।
- 2. उपरोक्त परिणामों की अंकेक्षण समिति ने समीक्षा की है और निदेशक मंडल ने उनकी 13 फरवरी, 2024 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किये गये। उसके लिए कम्पनी के वैधानिक परीक्षकों ने सीमित समीक्षा रिपोर्ट प्रदान की है।
- 3. पिछले अवधि के आकड़े जहाँ पर आवश्यक थे वर्तमान अवधि में पुष्टि के लिए समूहीकृत/वर्गीकृत किये गये।
- 4. कम्पनी पर w.e.f 1 अप्रैल, 2019 से भारतीय लेखा मानक लागू है।

बोर्ड की ओर से कृते बीसीएल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड

तिथि: 13.02.2024 स्थान: नई दिल्ली

महेन्द्र कुमार शारदा (प्रबन्ध निदेशक) DIN:00053042

(रै लाखों में ईपीस को छोडकर)



पंजीकृत कार्यालय : 118, ऊपरी प्रथम् तल, प्रकाश दीप , 7, टॉल्स्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन : 23353051, 23353052, इमेल : info@ansalabl.com वेबसाइट : www.ansalabl.com

31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के स्टैंडएलोन एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों से लिये गए उद्वरण

	विवरण	स्टॅंडएलोन					समेकित						
क्र सं		समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष
		दिसम्बर 31, 2023 (अनंकेक्षित)	सितम्बर 30, 2023 (अनंकेक्षित)	दिसम्बर 31, 2022 (अनकेक्षित)	दिसम्बर 31, 2023 (अनंकेक्षित)	दिसम्बर 31, 2022 (अनंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेसित)	दिसम्बर 31, 2023 (अनंकेक्षित)	सितम्बर 30, 2023 (अनकेक्षित)	दिसम्बर 31, 2022 (अनंकेक्षित)	दिसम्बर 31, 2023 (अनंकेक्षित)	दिसम्बर 31, 2022 (अनंकेक्षित)	मार्च 31, 2023
1	प्रचालनों से कुल आय	2,381.00	1,240.22	573.30	3,936.98	2,158.18	2,706.75	2,489.32	1,242.14	574.45	4,049.10	3,007.00	3,560.74
2	अवधि के लिये शुद्ध लाम / (हानि) (कर एव असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के पहले )	1,536.50	495.84	(196.58)	1,770.25	(134.33)	133.36	1,625.53	458.68	(201.85)	1,819.18	(143.19)	122.15
3	कर के पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद )	1,536.50	495.84	(196.58)	1,770.25	(134.33)	133.36	1,625.53	458.68	(201.85)	1,819.18	(143.19)	122.15
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद )	1,021.11	414.47	(193.24)	1,167.39	(340.79)	(104.87)	1,622.19	377.31	(205.19)	1,190.08	(153.35)	(116.76)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इस अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	983.08	405.70	(156.06)	1,120.09	(321.47)	(77.03)	1,646.59	653.67	(180.79)	1,610.34	(143.41)	(254.15)
6	समतुल्य अंश पूंजी	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38
7	अन्य इक्विटी						10,102.91						10,151.37
8	आय प्रति शेयर (इक्विटी प्रति शेयर ₹10) 1. मूलभूत : 2. द्रय्य :	13.83 13.83	5.61 5.61	(2.62) (2.62)	15.81 15.81	(1.95) (1.95)	(1.42) (1.42)	21.80 21.80	8.97 8.97	(2.95) (2.95)	22.45 22.45	(2.33) (2.33)	(3.82) (3.82)

अनंकेक्षित वित्तिय परिणामों के लिए टिप्पणियां

स्थानः नई दिल्ली

www.readwhere.com

दिनांक: 14.02.2024

1. 14 फरवरी 2024 को हुई बैठक में अनंकेक्षित स्टैंडएलोन और समेकित वित्तिय परिणामों की समिक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है तथा निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए है, जो कि 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के वित्तिय विवरण के विस्तृत

प्रारूप का सारकित अंश है। उपरोक्त पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.ansalabl.com पर उपलब्ध है।

3. कंपनी ने 31 दिसम्बर,2023 को समाप्त तिमाही में जयपुर परियोजना से संबंधित ग्राहकों को मूल धनराशि पर ब्याज वापिस करने का प्रावधान किया है, जो कि ₹ 528.30 लाख है।

(शोभित चार्ला) पूर्णकालिक निदेशक

बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से

अंसल बिल्डवेल लि.

हस्ता./-

DIN - 00056364

CCL INTERNATIONAL LIMITED

CIN:L26940DL1991PLC044520 Regd. Off.: M-4, Gupta Tower, B1/1, Commercial Comlex, Azadpur, New Delhi-110033 Corp. Office: C-42, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad-201002;

Tel: 01204214258, Email ID: cmpsec@cclil.com, Website: www.evocreteindia.com EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER &

NINE MC	NTH ENDE	31ST DECE	•			( lakhs
Particulars		Quarter Endi		ndalone Nine Mo	Year Ended	
		30.09.2023 31.12.2022 Unaudited Unaudited				31.03.2023 Audited
Total income from operations	1,092.45	361.38	20.56	2,030.27	852.04	1,732.81
Net Profit/ (loss) for the period (before Tax,						
exceptional and extraordinary items)	39.84	0.36	(267.18)	49.58	(265.53)	(197.12)
Net Profit/ (loss) for the period before Tax						
(after exceptional and extraordinary items)	39.84	0.36	(267.18)	49.58	(265.53)	(197.12)
Net profit/(loss) for the period after tax	40.95	0.01	(194.43)	52.08	(191.33)	(138.96)
Total comprehensive income for the period						
[Comprising profit/(loss) for the period (after tax)						
and other comprehensive income (after tax)]	-	-	-	-		-
Equity share capital (Face Value of Rs. 10/-)	1,919.26	1,919.26	1,919.26	1,919.26	1,919.26	1,919.26
Reserves (excluding revaluation reserve)						
as shown in the audited balance sheet"	-	-	-	-		2,589.00
Earnings per share						
(1) Basic	0.21	0.00	(1.01)	0.27	(1.00)	(0.72)
(2) Diluted	0.21	0.00	(1.01)	0.27	(1.00)	(0.72)
Note:			-			

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine month ended 31.12.2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The ful format of the said Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on the website o the Company at www.evocreteindia.com.

> For and behalf of Board of Directors **CCL International Limited** Sd/-Rama Gupta **Akash Gupta Managing Director** Director DIN: 00080613 DIN: 01940481

यू.पी. होटल्स लिमिटेड सीआईएन : एल55101डीएल1961पीएलसी017307 पंजीकृत कार्यालय : 1101, सूर्य किरण, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23722596-8, फैक्स : 011-23312990 ईमेल : clarkssuryakiran@yahoo.co.in, वेबसाइट : www.hotelclarks.com

	31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश (रु. लाख में, आय प्रति अंश छोड़कर)										
क, सं.	विवरण		त्तमाय तिमाही		चनाय नी	समाख वर्ष					
		31.12.2023	integeration to professional	31.12.2022	SANORSIA ROGENIA NO SE	America de Constante de la con	IT RESULTS AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P				
		अलेखापरीवित	अलेखायरीकित	अलेखापरीकित	अतेखापरिवित	अलेखापरीकित	लेखापरीवित				
1	परिचालनों से कुल आय	4 690.50	2,452.21	4.155.12	9.840.62	8,893.93	13.092.02				
2	अवधि डेतु निवल लाम / (हानि) (कर, आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1,772.43	90.64	1.365.07	2,452.30	1,949,44	3,182,01				
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाग/(डानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	1,772,43	90.64	1,365,07	2.452.30	1,949.44	3,182.01				
4	कर पश्चात् अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	1.342.60	67.83	1,021,51	1,861.85	1,458.81	2,336,45				
5	अवधि हेतु कुल व्यापक अव्य (अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर परचात) तथा अन्य व्यापक आव (कर परचात) से समाविष्ट)	1,344.70	75.03	1,034,18	1,850,10	1,482.86	2,354.86				
6	समता अंश पूंजी	540.00	540.00	540,00	540.00	540.00	540.00				
7	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर)	-	-	-	-	-	11.445.37				
å	आय प्रति अंश (रु. 10/- प्रत्येक का) 1. मूलमूत : 2. तरलीकृत :	24.86 24.86	1.26 1.26	18.92 18.92	34.48 34.48	27.02 27.02	100 DESCRIPTION				

टिप्पणियाँ :

Date: 14.02.2024

Place: Ghaziabad

- उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई थी तथा कंपनी के निदेशक मंडल ने 13 फरवरी 2024 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया। परिणाम, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा किये जाने के अधीन भी हैं।
- चपरोक्त सारांश, सेबी (सचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सकेंज के पास फाइलबद्ध 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के एकल विशीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। त्रैमासिक एवं नौ माह की अवधि का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सबेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट (www.hotelclarks.com) पर उपलब्ध है।

कृते यू.पी. होटल्स लिमिटेड अपूर्व कुमार स्तपक गुप्ता (संयुक्त प्रबंध निदेशकगण)



तिथि : 13-02-2024

स्थान : नई दिल्ली

पाल मचन्ट्स (आईएसओ 9001-2015 प्रमाणित क.) (CIN:L74900DL1984PLC018679) कॉर्पो. कार्या: एससीओ 829-830, सेक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022 फोन: 0172-5041786, फैक्स: 0172-5041713, ई-मेल: info@paulmerchants.net, वेबसाइट: w w w .paulmerchants.net पंजीकृत कार्या.: डीएसएम 335, 336, 337, 3रा तल, डीएलएफ टावर, 15, शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोन: 011-47529460

## ईवोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाकीय मतपत्र की सुचना

मैसर्स पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड के शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("प्रबंधन नियम") के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और 110 के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) के विनियम 44 तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए सर्कुलर") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के सदर्भ उपरोक्त परिपत्रों में प्रदान की गई रूपरेखा के अनुसार सामान्य और विशेष प्रस्तावों को पारित करने के विषय के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा जारी किए गए, जिसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या उस समय के लिए फिर से लागू होना शामिल है, के अंतर्गत डाकीय मतपत्र सूचना में निहित प्रस्तावों को एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम के लागू प्रावधानों की अनुपालना शेयरधारकों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग द्वारा पारित करना प्रस्तावित है। नोटिस में निर्धारित ईवोटिंग के माध्यम से डाकीय मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने वाले प्रस्तावित विशेष व्यवसाय को कंपनी के निदेशक के बोर्ड द्वारा अपरिहार्य माना गया है।

सचिवीय लेखा परीक्षकों सहित सदस्यों, निदेशकों और लेखा परीक्षकों को अनुमित प्राप्त विधि यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्याख्यात्मक विवरण के साथ डाकीय मतपत्र नोटिस के प्रेषण 14 फरवरी, 2024 को पूरा कर लिया गया है।

कंपनीज़ (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमों, 2014 यथा समय समय पर संशोधित, के नियम 20 व 22 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आपत्तियों के सुचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 108 व 110 के प्रावधानों की अनुपालना में सदस्यों को एतदृद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक विधि द्वारा वोट के अधिकार का प्रयोग करने हेतु सक्षम बनाने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है और व्यापार सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से संपादित किया जा सकता है।

ई-वोटिंग के लिए निर्देश डाकीय मतपत्र सूचना में दिए गए है। सदस्यों से निम्नलिखित नोट करने का अनुरोध है: **क.** ई-वोटिंग मंगलवार, 15.02.2024 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी) शुरू होगी और शुक्रवार, 15.03.2024 (सायः 5.00 बजे आइएसटी) बंद होगी।

- ई-वोटिंग मॉड्यूल को उसके बाद सीडीएसएल द्वारा असक्षम कर दिया जाएगा और कथित तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नही दी
- ख. सदस्यों को वोटिंग अधिकार (ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग) शुक्रवार, 09.02.2024 (कार्यालय समय के समापन) ("कट-ऑफ तिथि") को कंपनी की भुगतान इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयर के अनुपात में कर सकेंगे। एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में केवल कट-ऑफ तिथि (व्यापार समय का समापन) के रूप में दर्ज किया गया है, डाकीय मतपत्र नोटिस प्राप्त करने और ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने का हकदार है। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयरधारक नहीं है, उसे डाकीय मतपत्र नोटिस को केवल सचना के उद्देश्य से मानना चाहिए। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, ऐसे सदस्य द्वारा वोट को बाद में संशोधित नहीं किया जा सकता है।
- ग. कोई व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को भौतिक विधि में शेयरधारक है वह कंपनी के आरटीए मै. अलंकित असाइनमेंट्स लि., 1ई/13, झंडेवाला एक्स्ट., नई दिल्ली-110055 (भारत) फोन नं. 011-42541959, ईमेल आईडी ramap@alankit.com या कंपनी को ईमेल आईडी investor.redressal@paulmerchants.net पर अनुरोध भेजने द्वारा लॉग इन आईडी व अनुक्रम सं. प्राप्त कर सकते है। वे व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार डीमैट मोड में शेयर रखते हैं, ई-वोटिंग से संबंधित निदेशों के लिए कंपनी की वेबसाइट www.paulmerchants.net या सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर कंपनी के डाकीय मतपत्र नोटिस को देखने का अनुरोध किया जाता है। लॉगिन आईडी, पासवर्ड, प्रमाणीकरण और रिमोट ई-वोटिंग का प्रयोग करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया पहले से ही डाकीय मतपत्र नोटिस के नोट्स में प्रदान की गई है। सदस्यों से अनरोध है कि वे इसे देखें। जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते अपडेट नहीं किए हैं. उन्हें नीचे नोट (डी) में दी गई प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी जाती है।
- भौतिक विधि में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को अपडेट नहीं किया है, वे डाकीय मतपत्र नोटिस और इवोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए कंपनी को investor.redressal@paulmerchants.net पर या कंपनी के आरटीए को ramap@alankit.com पर लिखकर प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी के साथ ईमेल आईडी के पंजीकरण के लिए, कृपया निर्धारित दस्तावेजों के साथ परिपत्र सं SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांक 03.11.2021 के माध्यम सेबी द्वारा निर्धारित प्रपत्र आईएसआर-1 के माध्यम से ईमेल द्वारा कंपनी को investor.redressal@paulmerchants.net पर या आरटीए को ramap@alankit.com पर आवश्यव विवरण प्रदान करें। उक्त प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.paulmerchants.net पर निवेशक अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। कोई भी सदस्य जिसे डाकीय मतपत्र नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वे इसे वेबलिंक https://www.paulmerchants.net/paulmerchants/wp-content/uploads/2024/02/PML-Postal-Ballot-Notice.pdf से डाउनलोड कर सकते हैं और लॉग इन विवरण प्राप्त करने के लिए टिप्पणियों में दिए गए निर्देश इसका पालन कर सकते हैं। डीमैट मोड में शेयर धारक करने वाले सदस्य, कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपडेट करें।

ड़. जिन सदस्यों को डाक मतपत्र की सूचना नहीं मिली है, वे investor.redressal@paulmerchants.net पर लिखकर कंपनी में आवेदन कर सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट www.paulmerchants.net पर जा सकते हैं। डाक मतपत्र की सूचना सीडीएसएल अर्थात ई-वोटिंग की सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी की वेबसाइट https://www.evotingindia.com तथा बीएसई लि. की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी प्रदर्शित किया गया है।

कंपनी के निदेशकों के बोर्ड ने निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग के माध्यम से डाकीय मतपत्र की प्रक्रिया को आयोजित करने के लिए संवीक्षक के तौर पर श्री कंवलजीत सिंह थाणेवाल, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या) एफसीएस नं. 5901 तथा सीपी नं. 5870) एससीओ 64–65, सैक्टर्ग 17-ए, चंडीगढ़ को नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग के माध्यम से डाकीय मतपत्र की परिणाम शनिवार, 16 मार्च, 2024 को 5.00 बजे (आईएसटी) कंपनी के सयुंक्त कार्यालय एससीओ 829-830, सैक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022 में घोषित किया जाएगा। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत परिणाम घोषित करने के बाद कंपनी की वेबसाइट (www.paulmerchants.net) और सीडीएसएल की वेबसाइट (https://www.evotingindia.com) पर डाले जाएंगे और उसके साथ बीएसई लि. जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, भेजे जाएंगे। प्रस्ताव के पक्ष और विरोध में डाले गए वोट की संख्या के साथ वोटिंग का परिणाम, अवैध वोट तथा प्रस्ताव निष्पादित किया या नहीं किया गया, कंपनी के नोटिस बोर्ड स्थित पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली और संयुक्त कार्यालय चंडीगढ़ पर

ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतपत्र से संबंधित किसी पूछताछ या मामले की स्थिति में आप फ्रीक्वेंटली आक्स्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्य्") तथा www.evotingindia.com पर हैल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध ई-वोटिंग मेन्यूल को देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें या 022-23058738, 022-23058543 या 022-23058542 से संपर्क करें। इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से वोटिंग से संबंधित सभी समस्या की स्थिति में श्री राकेश दलवी, वरि. प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, माफतलाल मिल कंपाऊड्स, एनएम जोशी मार्ग, लॉअर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013 से संपर्क करें। सदस्य श्री हरदम सिंह, कंपनी के कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी से investor.redressal@paulmerchants.net या 0172-5041760 या फैक्स नं. 0172-5041713 या पीएमएल हाउस, एससीओ 829-830, सैक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022 पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड

हरदम सिंह, कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी, तिथि: 15 फरवरी, 2024 स्थानः चंडीगढ़ एफसीएस 5046